



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

23 श्रावण 1935 (श0)  
(सं0 पटना 655) पटना, बुधवार, 14 अगस्त 2013

---

उर्जा विभाग

अधिसूचना

31 जुलाई 2013

सं0 प्र-2/बोर्ड पुर्न0 सं0 - 31/2008/23—अधिसूचना सं0-06 सहपठित ज्ञापांक-1741 दिनांक 22.03.2013 द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की पाँच उत्तराधिकारी कम्पनियों यथा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के निदेशक मंडल की संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0, पटना के चार अनुशंगी कम्पनियों के निदेशक मंडल में निदेशक अंशकालिक के पद के लिए वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि को नामित किया जाना है। तदनुसार बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के निदेशक मंडल के लिए वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में श्री प्रभात शंकर, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार को नामित किया जाता है।

इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संदीप पौण्डरीक,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 655-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>